

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 27 जनवरी 2023

प्रश्न -1

_____ ने कुआलालंपुर में आयोजित मलेशिया ओपन सुपर 1000 पुरुष एकल खिताब जीता।

- A) विक्टर एक्सेलसन
- B) सी सुंग जय
- C) कोडाई नाराओका
- D) कांग मिन ह्युक

सही उत्तर: A

विक्टर एक्सेलसन ने कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन सुपर 1000 पुरुष एकल खिताब जीता। ओलंपिक और विश्व चैंपियन एक्सेलसन ने जापान के युवा खिलाड़ी कोडाई नाराओका को 40 मिनट में हराकर सीधे गेम में मलेशिया ओपन का खिताब जीता।

प्रश्न-2

किस वर्ष तक पूरे देश को डॉप्लर मौसम रडार नेटवर्क द्वारा कवर किया जाएगा?

- A) 2027
- B) 2026
- C) 2025
- D) 2024

सही उत्तर: C

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि डॉप्लर मौसम रडार नेटवर्क 2025 तक पूरे देश को कवर करेगा ताकि चरम मौसम की घटनाओं से संबंधित अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सके।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 27 जनवरी 2023

प्रश्न-3

कौन सा देश भारत से पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 खुराक का दान प्राप्त करने वाला है?

- A) ज़िम्बाब्वे
- B) सूडान
- C) घाना
- D) क्यूबा

सही उत्तर: D

भारत ने क्यूबा को पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है। पेंटावैलेंट टीका एक बच्चे को 5 जानलेवा बीमारियों - डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस B और Hib से सुरक्षा प्रदान करता है।

प्रश्न-4

अपनी आत्मकथा 'ओरनवेशनंथिनते कथा'के लिए, किसनिम्नलिखित लेखक ने पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 प्राप्त किया है?

- A) के. वेणु
- B) मुकुल रोहतगी
- C) प्रदीप खरोला
- D) आर. वेंकटरमणी

सही उत्तर: A

प्रसिद्ध लेखक के. वेणु (के. वेणुगोपाल) को उनकी आत्मकथा 'ओरनवेशनंथिनते कथा'के लिए पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 मिला। उन्हें फेडरल बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक बालगोपाल चंद्रशेखर से पुरस्कार मिला।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 27 जनवरी 2023

प्रश्न-5

निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ गोगोरो और बेलराइजने बैटरी-स्वैपिंग बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए \$2.5 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए?

- A) तेलंगाना
- B) महाराष्ट्र
- C) केरल
- D) बिहार

सही उत्तर: B

ताइवान के गोगोरो, भारत के बेलराइज ने बैटरी स्वैपिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें आठ वर्षों में \$2.5 बिलियन का निवेश होगा।

प्रश्न-6

भारत की अध्यक्षता में, G-20 'थिंक-20' की बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी?

- A) अहमदाबाद
- B) भोपाल
- C) नई दिल्ली
- D) वाराणसी

सही उत्तर: B

मध्य प्रदेश के भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में G-20 शिखर सम्मेलन के तहत 'समावेशी विकास' पर 'थिंक-20' सत्र आयोजित किया गया। सत्र की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की एलिजाबेथ सिदिरोपोलोस ने की।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 27 जनवरी 2023

प्रश्न-7

_____ पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बन गया।

- A) लेह
- B) लक्षद्वीप
- C) जम्मू और कश्मीर
- D) चंडीगढ़

सही उत्तर: C

जम्मू और कश्मीर पूरी तरह से डिजिटल होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। एक पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रणाली के साथ, जम्मू और कश्मीर देश में डिजिटल सरकार के एक मॉडल के रूप में भी उभर रहा है।

प्रश्न-8

निम्नलिखित में से किस देश की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है?

- A) ऑस्ट्रेलिया
- B) आइसलैंड
- C) आयरलैंड
- D) न्यूजीलैंड

सही उत्तर: D

न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्नने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अर्डर्न (42) 2017 में 37 साल की उम्र में प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद दुनिया की सबसे कम उम्र की सरकार की प्रमुख बनी थीं।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 27 जनवरी 2023

प्रश्न-9

निम्नलिखितमें से किस देश की अर्थव्यवस्था विश्व बैंक के अनुसार दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था है?

- A) श्रीलंका
- B) पाकिस्तान
- C) नेपाल
- D) बांग्लादेश

सही उत्तर: B

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था है, विश्व बैंक ने 13 जनवरी, 2023 को पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर के चालू वित्त वर्ष में दो प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था, जो जून 2022 के अनुमान से दो प्रतिशत कम है।

प्रश्न-10

निम्नलिखित में से किस शहर में भारती एयरटेल हाइपरस्केल डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए तैयार है?

- A) मुंबई
- B) हैदराबाद
- C) दिल्ली
- D) देहरादून

सही उत्तर: B

भारती एयरटेल समूह ने घोषणा की है कि वह हैदराबाद में एक बड़े हाइपरस्केल डेटा सेंटर की स्थापना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। यह सुविधा पहले चरण के लिए 60 मेगावाट IT लोड की क्षमता के साथ एक हाइपरस्केल डेटा सेंटर होगी।